#### VINAYAK VANIJYA LIMITED

Registered Office: Flat No. 28, Stilt Floor, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019, Website: www.vinayakvanijya.com, Phone: 9079738420, Email Id: <a href="mailto:vvanijya1985@gmail.com">vvanijya1985@gmail.com</a> CIN: L52110DL1985PLC020109

Date: 11.11.2024

To,
The Head- Listing Compliance **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001

**Scrip Code: 531887** 

Sub: <u>Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)</u>
<u>Regulations, 2015-Newspaper Publication</u>

#### Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find attached herewith copies of the Newspaper Advertisement of the Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter and half year ended 30th September 2024 approved at the Board Meeting of the Company which was held on Saturday, 09<sup>th</sup> September, 2024 (commenced at 03:00 P.M and concluded at 06:40 P.M.), published in leading English Newspaper (Business Standard) and in Regional Language (Hindi) Newspaper (Business Standard Hindi Edition).

Kindly take the above information on your records.

Thanking You, For Vinayak Vanijya Limited

Mukhtar Singh Wholetime Director DIN: 06525800

Place: New Delhi

# 50 years of market wisdom, not market whispers.



#### THE ASKA COOPERATIVE SUGAR INDUSTRIES LTD.

P.O. Nuagam (Aska) - 761111, Ganjam District, Odisha email:askasugar@yahoo.co.in, GSTIN: 21AAAAT5989L1Z0

#### **PRE-BID MEETING NOTICE**

Notice No.1578/2024

The Managing Director, Aska Co-Operative Industries Ltd. Nuagam, Aska Invites the interested Registered contractors of state PWD or equalvalent class of CPWD/Railway/MES/Central Govt./State Govt. Undertaking for the following works of the Aska Co-Operative Industries Ltd. Nuagam, Aska

| SI. No. | Name of the Work  |
|---------|---|
| 1.      | Erection of Truss & Purlins, Roof Gutters and colour GSI sheets Roofing work of the Sugar Plant & others. |
| 2.      | Erection of Purlins and colour GSI sheets Roofing work of the Sugar Mill.                                 |

- The interested contractors are requested to attend on the Pre-Bid Meeting for discussion on the detail Specification of the above said work on date: 19.11.2024 at 10:30 AM at the Conference Hall of the Aska Co-Operative Sugar Industries Ltd, Aska.
- Basing on the finalised specification, a fresh Tender Call Notice will be published on Dated: 20.11.2024 onwards and the last date for receiving of the Tender Bid will be Date : 11.12.2024 (in between Office Hours). The said tender will be opened on Date: 12.12.2024 at 10:30 AM in presence of the tenderers or their authorised representative.
- All related documents will be published in the office website. Any other future corrections and Modifications are to be published in the office website only. No representations will be received regarding the said Modification.
- The authority reserves the right to the reject any or all tender without assigning any reason thereof.

Managing Director

Dt.08.11.2024

#### VINAYAK VANIJYA Limited

Registered Office: Flat No. 28, Stilt Floor, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019. Website: www.vinayakvanijya.com, Phone: 9079738420, Email id: wanijya1985@gmail.com CIN: L52110DL1985PLC020109

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended on 30th September, 2024

| (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)  |             |              |             |             |             |            |  |  |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| Particulars  |             | Quarter Ende |             |             | ar Ended    | Year Ende  |  |  |
|  | 30.09.2024  | 30.06.2024   | 30.09.2023  | 30.09.2024  | 30.09.2023  | 31.03.2024 |  |  |
|  | (Unaudited) | (Unaudited)  | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited)  |  |  |
| Revenue from operations  | 0.00        | 0.00         | 4.00        | 0.00        | 6.31        | 19.85      |  |  |
| Other Income   | 2.23        | 3.20         | 2.29        | 5.43        | 2.29        | 10.46      |  |  |
| Net Profit/(loss) for the period<br>(before Tax, Exceptional and/or<br>Extraordinary items)  | -2.19       | 1.05         | -0.67       | -1.14       | -5.97       | (31.16)    |  |  |
| Net Profit/ (loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | -2.19       | 1.05         | -0.67       | -1.14       | -5.97       | (22.75)    |  |  |
| Total Comprehensive Income for<br>the period [Comprising Profit /<br>(Loss) for the period (after tax)<br>and Other Comprehensive<br>Income (after tax)] | -2.19       | 1.05         | -0.67       | -1.14       | -5.97       | (22.75)    |  |  |
| Equity Share Capital   | 99.60       | 99.60        | 99.60       | 99.60       | 99.60       | 99.60      |  |  |
| Reserves (excluding Revaluation<br>Reserve) as shown in the<br>Audited Balance Sheet of<br>previous year)  |             |              |             |             |             | 79.80      |  |  |
| Earnings Per Share<br>(of Rs. 10/- each) for continuing<br>and discontinued operations)-   |             |              |             |             |             |            |  |  |
| 1. Basic   | -0.23       | 0.11         | -0.07       | -0.12       | -0.60       | (2.28)     |  |  |
| 2. Diluted   | -0.23       | 0.11         | -0.07       | -0.12       | -0.60       | (2.28)     |  |  |

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Financial Results filed with the Stock Ex change under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and on the website of the Company at <a href="https://www.vinayakvanijya.com">www.vinayakvanijya.com</a>

For Vinayak Vanijya Limited

Name and Address of the

Mukhtar Singh (Director) DIN: 06525800

#### **Honda Cars India Limited**

Registered Office: Plot No. A-1, Sector 40/41, Surainur Kasna Road, Greater Noida Industrial Development Area, Gautam Budha Nagar (U.P.) - 201306, CIN: II15114UP1995PLC099377. E-mail: corporate@hondacarindia.com. Tel : 0120 - 2341306 Website: www.hondacarindia.com

#### NOTICE

Notice is hereby given to the Members of the Honda Cars India Limited (Company) that pursuant to the provisions of Section 201 of the Companies Act, 2013 (Act), the Company intends to apply for approval of the Central Government under Section 196 read with Schedule V and other applicable provisions of the Act, for appointment of Mr. Yoshihiko Matsumoto (DIN: 10782875) Non-Resident as Whole-time Director of the Company, for a period of five (5) years, with effect from 1st October, 2024

For Honda Cars India Limited

Place: Greater Noida Dated: 07.11.2024

Bengaluru, 9 November 2024

Anjali Yadav Company Secretary IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS MADURAI BENCH (Appellate Jurisdiction) A.S. (MD) No.29 Of 2014

Date: 09.11.2024 Place: New Delhi

Society for Education, age Action & Improvemen Firuchirappalli. ......Appellant

--- Versus --- Water Aid, an Incorporated Company in UK, With a Liason Officer at New Delhi Represented by Country Representative, Registered Office at Prince Consort House 27-29, Albert Embankment, LONDON SE 17 UB, United Kingdom represented by its Country Represented 1st Floor

Country Represented, 1st Floor, Nursery School Building, C-3, Nelson Mandela Marg, VasantKunj, New Delhi-110 070. ......Responde

**Court Notice** 

Please take notice, the above said appeal preferred by the appellant against he judgment and decree dated 8.11.2013 made in O.S.No. 104 of 2008 on the file of the III Additional District Court.

on the file of the III Additional District Court, Truchirappalli came up hearing on 04.11.2024 and the Hon'ble High Court order paper publication on local daily newspaper at New Delhi on before 25.11.2024 and next hearing dated 09.12.2024. Hence, you are hereby requested to appeal before Hon'ble High Court, Madurai Bench on 09.12.2024 either through your counsel or in person on the date, failing which, the matter will be decided in your absence.

P.ARUN JAYATRAM, Advocate

P.ARUN JAYATRAM, Advoca Date: 04.11.2024 Counsel for Appellant

HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LIMITED

Regd Off: HCG Towers, # 8, P Kalinga Rao Road, Sampangi Ram Nagar, Bengaluru – 560027,

Corporate Office: Unity Buildings Complex, No. 3, Tower Block, Ground Floor, Mission Road,
Bangalore – 560027, Karnataka, India Phone: +91 – 80 – 4660 7700, Email: investors@hcgel.com; Website: www.hcgoncology.com

**EXTRACT OF THE CONSOLIDATED & STANDALONE FINANCIAL RESULTS** 

| ·   |                                       | Conso   | lidated                                  |   | Standalone                            |   |  |   |  |  |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Partiaular.   |                                       | (Amount in  | Rs. Lakhs)                               |   |                                       | (Amount in  | Rs. Lakhs)                               |   |  |  |
| Particulars   | Quarter ended<br>30 September<br>2024 | Corresponding<br>quarter ended<br>30 September 2023 | Six months ended<br>30 September<br>2024 | Previous year<br>ended<br>31 March 2024 | Quarter ended<br>30 September<br>2024 | Corresponding<br>quarter ended<br>30 September 2023 | Six months ended<br>30 September<br>2024 | Previous year<br>ended<br>31 March 2024 |  |  |
|   |                                       | Unaudited   |  | Audited                                 |                                       | Unaudited   |  | Audited                                 |  |  |
| Total income  | 56,467                                | 49,034  | 109,906                                  | 192,906                                 | 31,691                                | 28,488  | 62,102                                   | 111,617                                 |  |  |
| Net profit for the period (before tax and exceptional items)  | 2,765                                 | 1,792   | 4,664                                    | 6,382                                   | 2,099                                 | 1,828   | 3,620                                    | 7,096                                   |  |  |
| Exceptional items, net gain / (loss)  |                                       | -   | -  | 390                                     |                                       | -   | -  | (1,610)                                 |  |  |
| Net profit for the period (after tax and exceptional items)   | 2,068                                 | 1,078   | 3,431                                    | 4,132                                   | 1,603                                 | 1,370   | 2,775                                    | 3,396                                   |  |  |
| Net profit for the period attributable to<br>equity share holders of the company  | 1,799                                 | 1,357   | 3,007                                    | 4,814                                   | 1,603                                 | 1,370   | 2,775                                    | 3,396                                   |  |  |
| Total comprehensive income for the period<br>(Comprising net profit and other<br>comprehensive income after tax) attributable<br>to equity share holders of the company | 1,838                                 | 1,225   | 3,089                                    | 4,771                                   | 1,603                                 | 1,370   | 2,775                                    | 3,367                                   |  |  |
| Equity share capital  | 13,939                                | 13,926  | 13,939                                   | 13,929                                  | 13,939                                | 13,926  | 13,939                                   | 13,929                                  |  |  |
| Reserves, i.e., 'Other equity'  |                                       | -   | -  | 68,649                                  |                                       | -   | -  | 104,930                                 |  |  |
| Earnings per share (of Rs.10 each) in Rs.<br>Basic:   | 1.29                                  | 0.97  | 2.16                                     | 3.46                                    | 1.15                                  | 0.98  | 1.99                                     | 2.44                                    |  |  |
| C   | 4.20                                  | 0.07  | 2.44                                     | 2.42                                    | 1.14                                  | 0.00  | 1.07                                     | 0.40                                    |  |  |

ve is an extract from the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the NSE Limited (www.nseindia.com), BSE ww.bseindia.com) and at the Company's website (www.hogoncology.com).

For HealthCare Global Enterprises Limited



Asset Recovery Branch, Agra, A/4, Suraj Complex, First Floor, Sadar Bazar, Agra **SALE NOTICE** 

#### Sale Notice for Sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for sale of immovable Asset/s under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charge to the Secured Creditor, the Constructive/Symbolic/Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will he sold on "As is where is" "As is What is and "Whatever there is" on the date mentioned below for recovery of dues as mentioned bereunder to Union Bank of India

| S.<br>N. | Borrower/Mortgagor/Guarantor<br>Name & Address  | Description of Properties   | Poss-    | Reserve Price<br>EMD                     | Demand Notice<br>Date  |
|----------|---|---|----------|--|--|
| 1.       | Borrower: M/s Gangadas Hardware sainitery   | Part of Gata No. 63 and 70, Mauza Lohagarh, (Now Goverdhan dham   | ession   | 54,00,000/-                              | 21.12.2023   |
|          | Mr. Gylveer Sharma, Add. of both- House No.<br>123, Mohalla Upadhyay 6, Khair Aligarh,<br>Mortgagor- Mrs. Sadhana Devi W/o Mr.<br>Santosh kumar, Add Goverdhan dham<br>Colony, Tehsil Khair, Aligarh  | colony), Near Khair- Aligarh Road par, Teĥsil Khair, Distt Aligarh, Area-<br>501.66 Sq. Mtr., in the name of Smt Sadhana devi Wlo Mr. Santosh kumar,<br>Bounded as: East- Plot of owner, West- Rasta 24' wide, North- Rasta 18'<br>wide, South- Plot of Premlata  | Symbolic | 5,40,000/-                               | 44,92,877.9<br>interest thereo<br>& Other Expens                 |
|          | Mrs. Kusum W/o Sanjeev Kumar, Add.<br>of both- Geeta Vihar Colony, Quarsi-<br>Etah Bypass Road, Aligarh   | Double storied Residential Building,Part of Gata no 354, 614 and 615 situated at Mauza Quarsi, now Geeta vihar colony, Near Engineers colony, Tehsil-Koil, Distt- Aligarh, Area- 150 sq yards(125.41 sq mtrs), in the name of Mr. Sanjeev Kumar S/o Mr. Khuba Ram, Bounded as: East- 20 feet wide rasta, West- Plot of Tularam, North- Plot of Ratan Gupta, South- Plot of Banwari  | Symbolic | 27,00,000/-<br>2,70,000/-<br>27,000/-    | 24.01.202<br>21,88,036.3<br>interest thereo<br>& Other Expens    |
|          | Ashu Kumar S/o Mr. Vinod Kumar, Add. of both- Khair Bypass Road.  | Double storied residential House no 05/76 B,Property part of parcel of Khasra No. 439, Mauza nagla Khar, (Now Panch sheel colony) Near khair bypass road, Tehsil Koil, Distt Aligarh, Area- 95.30 Sq mtr., Bounded as: East- Plot of Bhagwan Swarup, West- Rasta 10' wide, North- Plot of Ram khiladi, South-Plot of Chandrapal   | Symbolic | 27,00,000/-<br>2,70,000/-<br>27,000/-    | 24.01.202<br>26,41,545.7<br>interest thereo<br>& Other Expense   |
| 4.       | Borrower: M/S Nidhi Steel and Safe Company, Prop Mr Neeraj Srivastav, Add House No 19/173, New Premier Nagar, Mahendra Nagar, Bank Colony, Distt Aligarh, Guarantor- Mrs Renu Srivastav W/o late Avdesh kumar Srivastav, Add House No 19/173, New Premier Nagar, Mahendra Nagar, Bank Colony, Distt Aligarh                         | All that part and parcel of Residential land with plant property bearing nagar nigam no 19/5275 (plot no 173) and situated at premier nagar Mahendran Nagar, Pargana and Tehsil koil, Distt Aligarh, Area- 200.00 Sq Mtr, Property in the name of Mrs Renu Srivastava W/o Late Sri Avdesh Kumar Srivastava, Bounded as: East- Plot no 174, West- Plot no 172, North- Road 30' wide, South- Property of Deegar person                              |          | 55,00,000/-<br>5,50,000/-<br>55,000/-    | 14.07.202<br>66,22,432.7<br>interest there<br>& Other Expens     |
|          | Borrower: M/s Samreen Bangle Store<br>Through Prop Sharafat Hussain, Add<br>Taj Market, Sadar Bazar Shikohabad,<br>Guarantor- Mrs Nafeesa Begum W/o Shri<br>Noor Mohammad, Add House No 19/A<br>Mohalla Purana Rasoolpur, Firozabad   | All that part and parcel of Residential Property Situated at 19/A purana rasoolpur Firozabad, Area- 90.00 Sq. Mtr., in the name of Mrs Nafeesa Begum W/o Noor Mohammad, <b>Bounded as:</b> East- Aam Rasta, West-House of Lala Ji, North- house of Basiram, South- Property of Dulari Devi  | Symbolic | 19,10,000/-<br>1,91,000/-<br>19,100/-    | 35,15,000<br>interest<br>thereon & Oth<br>Expenses               |
|          | Borrower: M/s Shri Ram Oil Mill, Prop-<br>Jitendra Kumar S/o Dharmveer Singh,<br>Guarantor- Shri Dharmveer Singh S/o Shri<br>Ram Singh, Add. of both- H. No. G 175/1,<br>Raj Vihar Colony, Talaspur Kalan, Behind<br>Harkut Tin Udyog Aligarh   | All that part and parcel of Residential house property situated at khasra No. 163ka, Talaspur kalan, Pargana and tehsil koil, distt Aligarh, Area- 75 sq yards, in the name of Mr. Dharmveer Singh S/o Ram Singh, <b>Bounded as:</b> East- Plot of Mr. Manveer Singh, West- Plot of Mr. Prakash Gautam, North-Plot of jalali wale, South- Road 15 feet wide   | Symbolic | 25,50,000/-<br>2,55,000/-<br>25,500/-    | 24,48,740.3<br>interest<br>thereon & Oth<br>Expenses             |
|          | Borrower: M/s Shravan Oil Company<br>Prop. Smt Meera Sharma W/o Shri<br>Ashok Kumar Sharma, Add Gari<br>Pachgain, Tehsil- Kasganj, Guarantor-1. Smt Meera Sharma W/o Shri<br>Ashok Kumar Sharma, 2. Shri Ashok<br>Kumar Sharma S/o Shri Shiv<br>Shankar Sharma, Add. of both-<br>Mohalla Nathuram, Gali Kharanja<br>Devidas Kasganj | All that part of property situated at petrol pump land and building situated at khasra no 676,677,Gata Plot No. 1505,1512, Village-Pachgain, Pargana bilram, Tehsil Kasganj, Area- 2806 sq mtr., Property in the name of Smt. Meera Sharma Wo Shri Ashok Kumar Sharma and Shri Ashok Kumar Sharma S/o Shri Shankar Sharma, Bounded as: East- Shop of Brijwasi, West- Property of Prem Pal, North- Property of Dharm Pal, South- 30 Feet Wide Road | Symbolic | 70,00,000/-<br>7,00,000/-<br>70,000/-    | 22.08.202<br>30,93,008.<br>interest<br>thereon & Oth<br>Expenses |
| 8.       | Borrower: Shri Raghvendra Sharma S/o<br>Ghurelal Sharma, Smt Munni Devi W/o<br>Ghurelal Sharma, Add. of both- H No. 325<br>ST/K-11A Semri Ka Tal, Devri Road Agra   | All that piece and parcel of property H.No. 32st/k-11a, part of Khasara No 49 New Old No 11 Semri ka Tal, Devri Road Agra, Area-156.33 Sq. Mtrs, Property in the name of Shri Raghvendra Sharma S/o Ghurelal Sharma, Bounded as: East- Road 6 Ft., West- House of Dev Singh, North- House of Lala Om Prakash, South- Tagore Madhyamik Vidhyalay School  | 0        | 32,50,000/-<br>3,25,000/-<br>32,500/-    | 11.09.201<br>28,66,769.<br>interest there<br>& Other Exper       |
| 9.       | Borrower: M/s Ganpati Traders, Office<br>Address- 94, Old Vijay Nagar Colony, Agra,<br>Prop Mrs Rinki Agarwal W/o Shri Nitin<br>Gupta, Borrower/Guarantor- Mr Nitin<br>Gupta S/o Shri Ashok Kumar Gupta, Add.<br>of both- 94, Old Vijay Nagar Colony Agra   | All the part and parcel of the immovable property, bearing Flat No. 201, 2nd Floor, situated at Property No.22/71 and 22/71/5, Ashoka Elegance, Old Vijay Nagar Colony, Agra, Area- 379 Sq. Mtr, Property in the name of M/s Ganpati Enterprises (Partners-Mrs Rinki Agarwal and Mr Nitin Gupta ), Bounded as: East- Open to sky, West- Corridor, North- Open to sky, South- Open to sky  | Symbolic | 1,58,00,000<br>15,80,000/-<br>1,58,000/- | 12.07.201<br>1,60,43,337<br>interest there<br>& Other Expen      |
|          | Borrower- M/s Sant Nirankari Engg Works,<br>Add Shop No.2, Baba The Mall, Etawah,<br>Prop Mr Sanjeev Kumar Solanki S/o Brij<br>Moman Singh, Guarantor- 1. Mr Pankaj<br>Kumar Solanki, 2. Mr. Brij Mohan Singh,<br>3. Mr Swarn Singh Solanki, Add. of all-<br>House No 324, Punjabi Colony,  | Em of Commercial Shop No 1, Located at Ground Floor of Baba The Mall Shastri Chauraha Mohalla Prem Nagar Tehsil & Distt Etawah, Area: 208.26 Sq Feet or 19.35 Sq Mtrs, In The Name of Mrs Mithilesh Wio Shri Braj Mohan, Bounded as: East: Shop of Baba Muddiplex, West: Comman Passage of Complex, North: Shop No.1 & 2 Bhadewar Glass, South: Shop No 2 Bhagwat Saxena  | po       | 21,50,000/-<br>2,15,000/-<br>21,500/-    | 17.08.202<br>40,78,461.7<br>interest therec<br>& Other Expens    |
|          | Karamganj Etawah  | 2. Em of Land & Building of Three Storey Residential House Situated<br>at House No 324, Mohalla Karam Ganj, Punjabi Colony, Near Bus<br>Stand Tehsil & Distt Etawah, Area: 980 Sq Ft or 91.07sq Mtrs, In The<br>Name of Mr Braj Mohan Singh S/o Shri Sitaram, Bounded as: East:<br>Plot of Shree Kaptan Singh, West: Plot of Junior Engineer, North: Plot<br>of Shri Balram Singh, South: 15 Feet Wide Road                                       | Symbolic | 43,50,000/-<br>4,35,000/-<br>43,500/-    |  |
| 11.      | Borrower- Smt Gulapsa Begam W/o<br>Yunis, Guarantor- Mr. Yunis S/o Banwari,<br>Add. of both- Islam Nagar, Mullapada,<br>Bhujpura, Tehsil Koil, Distt-Aligarh  | Nagar Nigam no 11/1-A-390A-1,Part & Parcel of Khasra No 40,<br>Gali No 1, Mohalla Islam Nagar, Near Abbasi Qabristan, Mulla<br>Pada Bhujpura, Pargana and Tehsil Koil, Distt- Aligarh, Area-<br>93.64 Sq Mt (112 Sq Yard) Bounded as: East- Road 16' wide,<br>West- House of Mr Garib Khan, North- House of Mr Ikram,<br>South- House of Mr Riyasat Khan  | Symbolic | 20,00,000/-<br>2,00,000/-<br>20,000/-    | 01.01.20<br>20,80,264.<br>interest there<br>& Other Exper        |
|          | Borrower: Mr Shambhu Nath Chaubey<br>S/o Ramdev Chaubey, Smt Malti Chaubey<br>W/o Shambhu Nath Chaubey, Add. of<br>both- House No. 31/489 Shri Gandhi<br>Ashram, Maharana Pratap Nagar Kamla<br>Nagar Agra, Guarantor- Shri Shatrughan<br>Dubey S/o Shri Ramnaval Dubey, Add  | 1. All That Part and Parcel of Residential Property Flat No. 103, Constructed Over Plot No. F- 324 3rd Floor, Khushi Residency, Kamla Nagar Agra, Area- 893.41 Sq Ft., Property in the name of Mr Shambhu Nath Chaubey S/o Ramdev Chaubey, Bounded as: East- Flat No.7, West- Propery No F-322, North- Property No F-338 & 340, South- Road 20' Wide  | Symbolic | 8,93,000/-<br>89,300/-<br>8,930/-        | 09.09.20<br>22,95,372<br>interest there<br>& Other Exper         |

Detail of encumbranches over the above properties, as known to the Bank - Not Known.

Date & Time of E-Auction: 29.11.2024, at 11.00 AM to 05:00 PM Last date of Submission of bid: On or before the commencement of e-Auction.

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided herein below or Contact "Authorised Officer Mr Praveen Kumar Gupta Contact no. - 9988712023" https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx and www.unionbankofindia.co.in

For Registration and Login and Bidding Rules visit https://ebkrav.in

This may also be treated as STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & Rule 9(1) OF SECURITY

INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002, to the borrower/s and guarantor/s

केनरा बैंक Canara Bank 🖈

#### **E-AUCTION NOTICE**

Total

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTIES THROUGH E-AUCTION (ONLINE AUCTION) UNDER RULES 8(6) & (9)

Reserve Price & EMD Date & Time

A Coverement of India Undertaking Together We Can

Notice is hereby given to the effect that the immovable properties described herein, taken possession under the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and Security Interest (Enforcement) Rules 2002, will be sold through e-auction on the following terms & conditions, through through M/s. PSB Alliance (Ebkray) through the website https://ebkray.in/ on Mention below table (With unlimited extension of the security interest). minutes duration each till the conclusion of the sale

D . 4 . 11 . . 6

| Ì | Secured Creditor & Add<br>in which the tender<br>document to be submit                         | Address of the  | Liabilities<br>as on   | Details of<br>Property/ies  | Last Date and Time of<br>Depositing EMD Amount   | of E-Auction Property Inspection    | Increment<br>Amount |
|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|
|   | Canara Bank Kishangarh Main branch (DP Code-2913) Ajmer- 305624 (Ph. No 9887858307)            | 1.M/S RAJASTHAN TYRE CARE (PROP.<br>SHAHNAJ) OPP. KHUSHI PARKING, NH-8,<br>MADANGANJ, KISHANGARH, AJMER-305801,<br>2. MRS. SHAHNAJ (Borrower) KULFI<br>FACTORY KE PASS, ROOPANGARH, AJMER,                              | Rs. 26,19,576/-<br>(Twenty Six Lakhs   | Land Of Muslim Samaj Takia, North: After 3 Ft Road House Of   | on or before 27.11.2024, 5.00  | 28.11.2024<br>02.30 pm-<br>03.30 pm | Rs.<br>5,000/-      |
|   | E-mail id:-<br>cb2913@canarabank.com   | RAJASTHAN, 305814, 3. MR. MAINUDEEN RANGREJ S.O MR HAJI MOHAMMAD RANGREJ (Guarantor), 4. MRS. RAHIMAN W/O HAZI MOHAMMED RANGREJ (Guarantor) Both are Resi. at: KIMHARO KA MOHALLA, ROOPANGARH, AJMER, RAJASTHAN, 305814 | Six Rupees) +<br>further interest and<br>other expenses                                  | Harjiram Kumawat, South: House Of Kalu Ram Gurjar  EMT OF RESIDENTIAL PLOT - IMMOVABLE: Residential Plot No. 75B, K.No. 3194/743 B Block, CM Colony, Village Roopangarh, Teh-Roopangarh, Dist-Ajmer-305814 admeasuring 233.33 sq. yd, standing in the name of Mrs. Rahiman Begum w/o Hazi Mohammed Rangrej (As per deed), Boundaries:- North: Road 40', South: Plot no. 76, East: Road 40', West: Plot No. 84 | PM (offline or online)  Rs. 8,15,000/- (Rs. Eight Lakh Fifteen Thousand only)  Rs. 81,500/- (Rs. Eighty One Thousand Five Hundred only) on or before 27,11,2024, 5.00 PM (offline or online) | 27.11.2024<br>03.00 pm-<br>05.00 pm | 3,333,              |
|   | 2- Canara Bank, AJMER<br>PRITHVIRAJMARG (DP<br>CODE-2134), Ajmer- 305001,<br>(Mob. 9001098300) | 1. M/s Fab Engineers (Borrower) (Prop. Amit<br>Sharma); 225A/28 New Colony, Bhajan Ganj,<br>Ajmer-305001. 2. Mr. Amit Sharma S/o Ashok<br>Sharma (Borrower), 225A/28 New Colony,  | Rs. 35,38,502/-<br>(Thirty Five Lakhs  | IMMOVABLE: Industrial converted property Plot no. 01-C situated at part of Khasra no. 1043 & 1044/1, Industrial area, village-Roopangarh, DistAjmer (Rajasthan) measuring area 692.95 Sqvd. standing in the name of Mr. Amit Sharma S/o Sh. Ashok   | <b>Rs. 4,45,000/-</b><br>(Rs. Four Lakh Forty Five<br>Thousand only)   | 28.11.2024<br>02.30 pm-<br>03.30 pm | Rs.                 |
|   | e-mail id:<br>cb2134@canarabank.com  | Bhajan Ganj, Ajmer, Rajasthan, 305001<br>3. Mr. Deepank Sharma S/o Mr. Ashok Sharma<br>(Guarantor), 225A/28 Bhajan Ganj New<br>Colony, Near Radhika Villa Ajmer, Rajasthan,<br>305001                                   | Thousand Five  | Sharma. Boundaries: As per deed - On the North: Open Land, On the South: 40' Road, On the East: Plot no 1B, On the West: Plot   | Rs. 44,500/- (Rs. Forty Four<br>Thousand Five Hundred only)<br>on or before 27.11.2024<br>5.00 PM (offline or online)  | 27.11.2024<br>03.00 pm-<br>05.00 pm | 5,000/-             |
|   | Canara Bank, AJMER MAIN branch (DP Code-0167), Ajmer-305001 (Ph.:-09001098229)                 | Mr. GULAZAR HUSAIN (Borrower) S/O<br>JAHIR HUSAIN, 399 KU.1, Farahan Gest<br>House, Silavat Mohalla, Ajmer, Rajasthan-<br>305001  | As on<br><b>06/11/2024:</b><br>Rs. <b>21,13,262/-</b><br>(Twenty One<br>Lakhs Thirteen   | Residential House Plot No. 9, Part of kh no 1004/1549/1, situated at Village Gegal, Ajmer. Admeasuring 1350.90 sqft. Property standing in Name of Mr. Gulazar hussain. Bounded as per deed: North: Plot No. 10, South: Plot   | <b>Rs. 6,50,000/-</b><br>(Rs. Six Lakh Fifty<br>Thousand only)   | 28.11.2024<br>03.30 pm-<br>04.30 pm | Rs.                 |
|   | E-mail id:<br>cb0167@canarabank.com  |   | Thousand Two<br>Hundred Sixty Two<br>Rupees)+ further<br>interest and other<br>expenses. | No. 8, East: Road 15 ft wide, West: Other's land  | Rs. 65,000/- (Rs. Sixty Five<br>Thousand only)<br>on or before 27.11.2024<br>5.00 PM (offline or online)   | 27.11.2024<br>03.00 pm-<br>05.00 pm | 5,000/-             |
|   | 4. Canara Bank, GEGAL SME<br>BRANCH (DP Code-2654),<br>Ajmer- 305801<br>(Ph. No 9001098227)    | 1) M/s H B M Marbles, Harmada Road,<br>Madanganj, Kishangarh, Dist-Ajmer,<br>Rajasthan-305801 (Borrower)<br>2.Sh Kartar Choudhary S/o Sh Mishri Lal   | As on <b>06.11.2024: Rs. 25,52,616/-</b> (Twenty Five Lakhs Fifty Two                    | EMT OF COMMERCIAL CONVERTED PROPERTY OFFICE-IMMOVABLE: Commercial Converted Property office No 1,2 &3part of Khasra No 510, 541 & 542 Situated at Radha Krishna Vihar, Part 2 Madanganj Kishangarh,   | Rs. 30,60,000.00<br>(Rs. Thirty Lakhs Sixty<br>Thousand only)  | 13.12.2024<br>03.30 pm-<br>04.30 pm | Rs.                 |
|   | e-mail id<br>cb2654@canarabank.com   | Choudhary (Proprietor) 3) Smt Prem Devi<br>W/o Sh Kartar Choudhary both ae resi, at:<br>R/O Ward No 8, Ramdev Ji Mandir Ke Pas,<br>Maliyo Ki Dhani, MadanGanj, KishanGarh,<br>Ajmer-305801                              | Thousand Six<br>Hundred Sixteen<br>Rupees)+ further<br>interest and other<br>expenses.   | Dist-Ajmer-305814. Admeasuring 1090.84 sq. ft. standing in the name of 1. Mr Kartar Choudhary (office No 1), 2. Mrs Prem Devi (office No 2 & 3). Boundaries As per deed East: Parking, West: 6'-0" W Passage, North: Parking, South: Office No 4  | Rs. 3,06,000/-<br>(Rs. Three Lakhs Six<br>Thousand only)<br>on or before 12.12.2024,<br>5.00 PM (offline or online)  | 12.12.2024<br>03.00 pm-<br>05.00 pm | 5,000/-             |

Other Terms & Conditions: 1. The property will be sold in "as is where is and as is what is and whatever there is" basis including encumbrances, if any. There is no encumbrance to the knowledge of the bank. 2. The asset will not be sold below the one rems & communs. 1. The property will be sold in a six where is an usa's where is an usa's where is an usa's where is an usa's while it is a six where is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while it is a six where it is an usa's while mediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance 75% within 15 days from the date of confirmation of sale. If the successful bidder fails to pay the sale price as stated above, the deposit made by him shall be forfeited. 7. Al charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder noty. 8. The borrower/guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the property will be auctioned/sold and proceeds will be adjusted towards outstanding dues of the bank and recovery process will continue for remaining outstanding liability. 9. For further details contact respective branches & service provider on their number & email id or visit bank's website <a href="https://www.canarabank.com">www.canarabank.com</a>. 10. For Sale proceeds above Rs. 50 Lacs (Rupees Fifty Lacs), TDS shall be payable at the rate 1% of the sale amount, which shall be payable separately by the successful buyer. 11. Authorised Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof. This publication of e-auction notice is made for the general public to participate in e-auction and is also an advance notice to the Borrowers/Partners/Guarantors/Mortgagors/Directors pertaining to the above mentioned accounts in terms of the stipulated provision of the SARFAESI Act." AUTHORISED OFFICER, CANARA BANK



#### संक्षेप में

#### ब्लैक बॉक्स का शुद्ध लाभ 60 प्रतिशत बढ़ा

एस्सार समृह की आईटी शाखा ब्लैक बॉक्स का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़कर 51.14 करोड रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने एक साल पहले इसी अवधि में 31.96 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान ब्लैक बॉक्स की आय 4.89 प्रतिशत घटकर 1,497.2 करोड़ रुपये रह गयी, जो वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 1,574.3 करोड़ रुपये थी। ब्लैक बॉक्स के पूर्णकालिक निदेशक संजीव वर्मा ने कहा कि कंपनी के लागत को कम करने के प्रयासों से बेहतर मार्जिन मिलेगा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 386 करोड़ रुपये का वित्तपोषण हासिल किया है।

### गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध

#### बढ़ती लागत के असर से कंपनियों पर बन रहा दबाव

# फिर दाम बढ़ाएंगी टायर कंपनियां

मुंबई, 10 नवंबर

🛨 श की अग्रणी टायर विनिर्माता कंपनियां लगातार तीसरी तिमाही में कीमत बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य कच्चे माल की लागत खास तौर से प्राकृतिक रबर में लगातार हो रही बढोतरी की भरपाई करने

महंगाई का दबाव इनपुट लागत बढ़ा रहा है, सिएट और जेके टायर ने राजस्व में स्थिर वृद्धि के बावजूद अपने लाभ मार्जिन में सिकुड़न देखी है, जिससे ये कंपनियां बढी लागत का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना रही हैं।

सिएट ने अपने यात्री व वाणिज्यिक टायर सेगमेंट में कीमतें 3 से 4 फीसदी बढ़ाई हैं और मौजूदा तिमाही में कीमतें और बढ़ाने की उसकी योजना है। अपनी हालिया आय रिपोर्ट में कंपनी ने बताया है कि दसरी तिमाही में उसका राजस्व रिकॉर्ड 3,300 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सालाना आधार पर 8.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। हालांकि उसका परिचालन मार्जिन वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 12.47 फीसदी से घटकर दूसरी तिमाही में 11.71 फीसदी रह गया, जिसकी वजह बढ़ती इनपुट लागत है।

सिएट के सीएफओ कुमार सुबैया ने कहा, लागत के इन दबावों के प्रबंधन के लिए हमने विभिन्न सेगमेंट में कीमतें बढ़ाई है और आगामी तिमाही में कीमतें और समायोजित की जा सकती हैं। कंपनी



लागत भरपाई करने की चल रही तैयारी

- टायर विनिर्माता कंपनियां लगातार तीसरी तिमाही में कीमत बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं
- प्राकृतिक रबर में लगातार हो रही बढोतरी की भरपाई करने की योजना बना रही हैं कंपनियां
- प्राकृतिक रबर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया है, जिसमें 13 फीसदी की कमी के बाद अचानक 55 फीसदी की वृद्धि हो गई

जानकारों ने चेताया है कि रबर की कीमतों पर लगातार अस्थिरता से यह इस क्षेत्र के लिए चुनौती बनी रह सकती है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा, 'प्राकृतिक रबर की कीमतों में नाटकीय रूप से उतार-चढ़ाव आया है, जिसमें 13 फीसदी की कमी के बाद 55 फीसदी की वृद्धि हो गई।' उन्होंने कहा, 'विनिर्माता इन लागतों का तुरंत वहन नहीं कर सके, जिससे मार्जिन कम हो गया और आपर्ति श्रृंखला में अड्चन होने लगी। यह भारत में मौजूदा रबर की कमी से भी जुड़ा है, जो केवल आयात के जरिये ही पुरा किया जाता है और इस पर टैरिफ भी अधिक लगता है।'

# एस्टर डीएम, क्वालिटी केयर इंडिया की विलय वार्ता अंतिम दौर में

#### प्रमुख अस्पताल श्रृंखलाएं और बेड संख्या

| •                        | C      | •    |
|--------------------------|--------|------|
| अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप   | 10,103 | _    |
| मणिपाल हॉस्पिटल्स        | 9,500  |      |
| नारायण हृदयालय           | 6,042  | A.   |
| एस्टर डीएम               | 4,994  | N. I |
| फोर्टिस हॉस्पिटल्स ग्रुप | 4,500  |      |
| क्वालिटी केयर            | 4,000  |      |
|                          |        |      |



स्रोत : उद्योग के सूत्र और रिपोर्ट/मार्च 2024

शाइन जैकब और देव चटर्जी चेन्नई/मुंबई, 10 नवंबर

अमेरिका की निजी इक्विटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ब्लैकस्टोन के स्वामित्व वाली क्वालिटी केयर इंडिया और बेंगलूरु की सूचीबद्ध अस्पताल श्रृंखला कंपनी एस्टर डीएम हेल्थकेयर के बीच विलय वार्ता अंतिम चरण में पहुंच गई है और उम्मीद है कि ब्लैकस्टोन के पास विलय से बनी कंपनी में बहलांश हिस्सेदारी होगी।

इस वार्ता की योजना के अनुसार क्वालिटी केयर सूचीबद्ध कंपनी के साथ विलय के लिए तैयार है और उसका नाम बदलकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर रखा जाएगा। निजी इक्विटी कंपनी टीपीजी और एस्टर के प्रवर्तक मूपेन परिवार के पास विलय से बनी कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी होगी। मूपेन परिवार ने पहले अपनी पश्चिम एशिया की अस्पताल श्रृंखला को अलग कंपनी में कर दिया था।

अंतिम चरण में है और आने वाले सप्ताह में शेयरों की अदला-बदली का सौदे किए जाने की उम्मीद है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सवालों के जवाब में एस्टर डीएम हेल्थकेयर के प्रवक्ता ने कहा, 'हम बाजार की अटकलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते।' ब्लैकस्टोन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को एस्टर डीएम का शेयर 437 रुपये पर बंद हुआ, जिससे इसका कुल बाजार मूल्यांकन 21,826 करोड़ रुपये हो गया।

विलय से बनी कंपनी में 9,900 बेड होंगे जो अपोलो हॉस्पिटल्स निजी इक्विटी क्षेत्र की अमेरिका की प्रमुख कंपनी ब्लैकस्टोन के पास विलय से बनी कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी रहने के आसार

एंटरप्राइजेज और मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज से कुछ ही कम हैं। घटनाक्रम से जुड़े सूत्र ने बताया कि उम्मीद है कि एस्टर डीएम के प्रवर्तक आजाद मूपेन को विलय से बनी कंपनी का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा।

इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक एस्टर के पास 4,994 बेड वाले करीब 19 अस्पताल के अलावा 13 क्लीनिक, 212 फार्मेसी (एस्टर के ब्रांड लाइसेंस के तहत अल्फावन रिटेल फार्मेसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित) और भारत के पांच राज्यों में 232 लैब और मरीज एक्सपीरियंस सेंटर हैं। क्वालिटी केयर के पास देश में सूत्रों के अनुसार यह विलय छह राज्यों के सात शहरों में सेवा प्रदान करने वाली 17 स्वास्थ्य सुविधा इकाइयां हैं। दोनों श्रृंखलाओं के पास विस्तार की योजनाएं भी हैं।

> पिछले साल अक्टूबर में ब्लैकस्टोन ने क्वालिटी केयर इंडिया में करीब एक अरब डॉलर में 72.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, जो केयर हॉस्पिटल्स और केरल की केआईएमएस हेल्थ का संचालन करती है। एस्टर ने पिछले साल अपनी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) कारोबार को भी अलग कर दिया था तथा वित्त वर्ष 27 तक 1,700 और बेड जोड़ने

की योजना बनाई है।

#### सरकार ने एचजेडएल ओएफएस से 3,449 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली, 10 नवंबर

सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) में बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए करीब 1.6 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 3,449 करोड़ रुपये जटाए हैं। सरकार ने दो दिवसीय ओएफएस के जरिये 6-7 नवंबर को 5.28 करोड़ शेयर या 1.25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही ग्रीन श विकल्प के जरिये इतनी ही अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव भी थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने ओएफएस से 3,449.18 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार के पास ओएफएस से पहले एचजेडएल में 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस बिक्री से सरकार

## ऋण २ प्रतिशत बढ़ा

रियल्टी फर्म गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध ऋण चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में दो प्रतिशत बढ़कर 7.572 करोड़ रुपये हो गया। भविष्य के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी का वित्तपोषण बढ़ा है। कंपनी की तरफ से जुलाई-सितंबर, 2024 तिमाही के नतीजों में यह सचना दी गई है। अप्रैल-जुन तिमाही के अंत में इसका शुद्ध ऋण 7,432 करोड़ रुपये था। गोदरेज प्रॉपर्टीज देश के अग्रणी डेवलपरों में से एक है। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे और बेंगलूरु में इसकी प्रमुख उपस्थिति है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने प्रतिभृतियों के निर्गम के जरिए 6,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है। बोर्ड ने पिछले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

> DISH TV INDIA I IMITED Corp. Office: FC - 19. Sector 16 A. Noida - 201 301, U.P.

Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park, S. V. Road, Goregaon (west), Mumbai - 400 062, Maharasht

E-mail: investor@dishd2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553, Website: www.dishd2h.com

Tel: 0120-5047000, Fax: 0120-4357078

INFORMATION REGARDING POSTAL BALLOT

Pursuant to Section(s) 108 and 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and

Rules made thereunder, read with applicable guidelines/circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA')

and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), Dish TV India Limited (the 'Company') proposes to seek

consent of the Members by way of Postal Ballot process / Voting by Electronics means ("Remote E-Voting"), to transact the businesses set out in the Postal Ballot Notice ('Notice'), which will be sent to the members in due

course only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or RTA or

The Notice along with the Explanatory statement will also be available on the website of Company a

www.dishd2h.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock

The Company will provide facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means only. The

manner, instructions & other information relating to Remote E-Voting process (including the manner in which

Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their voto

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders to whom the Notice could not be dispatched, the Company has made an arrangements with their Registrar and Transfer Agents of the Company

for registration of e-mail addresses in terms of relevant circulars. The process for registration of e-mail

Pursuant to relevant Circulars the shareholders including physical shareholders who have not registered the

email address and in consequence the Notice could not be serviced to them, may temporarily get their e-mail

address registered with the Company's Registrar and Transfer Agents viz. Link Intime India Private Limited by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email\_register.html and thereafter following the registration

process as guided therein. Post successful registration of the e-mail address, the shareholder would get the soft

copy of the Notice and procedure for Remote F-Voting along with User ID and password to enable Remote

-Voting. In case of queries relating to the registration of E-mail addresses, shareholders, may write

rnt.helpdesk@linkintime.co.in and for e-voting related queries they may write to National Securities Depositor

Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

through Remote E-Voting), will form part of the Postal Ballot Notice

#### टाटा स्टील Dish TV India Ltd शीर्ष अदालत

#### से करेगी गुहार टाटा स्टील शीर्ष न्यायालय के उस

फैसले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को खनन और खनिज इस्तेमाल की गतिविधियों पर उपकर लगाने का अधिकारी है।

इस्पात विनिर्माण की देश की अग्रणी कंपनियों में शुमार इस कंपनी की याचिका का उद्देश्य 25 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों के संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश में राहत की मांग करना है। अलबत्ता टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी टीवी नरेंद्रन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि कंपनी पर कोई कर मांग नहीं है। टाटा स्टील के पास झारखंड और ओडिशा में अपने निजी उपयोग वाली खदानें हैं। ओडिशा राज्य ने 1 फरवरी, 2005 से ओडिशा ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक विकास अधिनियम, 2004 लाग किया था, जिसमें खनिज संपन्न भूमि पर कर लगाया गया था। इसके बाद टाटा स्टील से ओडिशा में उसकी खदानों के संबंध में 129 करोड़ रुपये की मांग की थी। *बीएस* 

## वेदांत समूह ने बरकरार रखा लागत अनुमान

रबर की कीमतें कम होने से कुछ हद तक

दबाव कम होगा मगर हम जरूरत पड़ने

पर कीमतें बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं।'

जेके टायर का परिचालन मार्जिन भी

प्रभावित हुआ है और वित्त वर्ष 2025

की पहली तिमाही के 12.81 फीसदी से

घटकर यह दसरी तिमाही में 10.69

सिएट और जेके टायर दोनों का मानना

है कि टायर बदलने के बाजार में मांग

दमदार बनी हुई है, जिससे कीमतों में वृद्धि

का असर कम करने में भी मदद मिलेगी।

सिंघानिया ने कहा, 'हमें मांग पर काफी

ज्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है.

खासकर टायर बदलने के बाजार में जहां

मांग मजबूत बनी हुई है।' मगर उद्योग के

फीसदी हो गया।

अमृता पिल्लै मुंबई, 10 नवंबर

के ओईएम डिविजन में भी कीमतें 2.5

फीसदी बढ़ी है, हालांकि इसका पूरा

असर अगली तिमाही में प्रतिबिंबित होगा।

कर रही है और कंपनी ने पिछली दो

तिमाहियों से करीब 3 से 4 फीसदी की

अंडर रिकवरी दर्ज की है। कंपनी ने

अक्टबर और नवंबर के महीने में 1-2

फीसदी की चुनिंदा कीमतों में वृद्धि की है

और तीसरी तिमाही में भी ऐसा ही करने

जेके टायर के प्रबंध निदेशक अंशुमान

सिंघानिया ने कहा कि भले ही कंपनी

लागत वसूलने में लाभ दर्ज किया है मगर

बाजार गतिशीलता को लेकर भी सतर्क

है। उन्होंने कहा, 'हाल ही में प्राकृतिक

के बारे में सोच रही है।

जेके टायर भी लागत दबाव का सामना

वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को शेयरधारकों को बताया कि समूह निकट भविष्य में अपने तीन मुख्य कारोबारों - जिंक, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस की क्षमता दोगुनी करेगा। कंपनी के अधिकारियों और विश्लेषकों ने मीडिया के साथ बातचीत में पंजीगत व्यय बढ़ाने के अलावा लागत अनुमान हासिल करने और कर्ज को नियंत्रण में रखने का भरोसा जताया।

रविवार सुबह वेदांत लिमिटेड के शेयरधारकों को भेजे अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा, 'हमारा लक्ष्य अपनी सहायक कंपनी हिंदस्तान जिंक लिमिटेड में उत्पादन स्तर को दोगुना करने, केयर्न ऑयल ऐंड गैस में तेल उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन तीन लाख बैरल करने और अपने एल्युमीनियम स्मेल्टर की क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 लाख टन करने का है।'

अग्रवाल के बताए कुछ क्षमता विस्तार अलग-अलग चरण में हैं। जिंक अभी योजना के स्तर पर है। उदाहरण के लिए जिंक खनन की क्षमता बढाकर 20 लाख टन करने की योजना के बारे में हिंदुस्तान जिंक (एचजेडएल) के अधिकारियों ने विश्लेषकों को बताया कि उत्पादन बढाने के पहले चरण के तहत कंपनी अब खनन विकास शरू करने के लिए नियक्त किए जाने वाले खनन ठेकेदारों के साथ चर्चा की तैयारी कर रही है। एल्युमीनियम कारोबार (बालको) में विस्तार के तहत वेदांत के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को प्रतिबद्ध पुंजीगत व्यय को पहले के स्वीकृत 9,247

करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,816 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी। वेदांत के अधिकारियों ने कहा कि पूंजीगत व्यय में यह वृद्धि 'काम पुरा करने की लागत' और रुकावटें दूर करके क्षमता के अवसरों को बढ़ाने के लिए है। वेदांत के निदेशक मंडल ने अपनी छत्तीसगढ इकाई में बिजली क्षमता बढ़ाने के लिए 5,209 करोड़ रुपये के नए पंजीगत व्यय को भी मंजरी दी है।

vedanta

तेल एवं गैस कारोबार के मामले में कंपनी के अधिकारियों ने शुक्रवार को विश्लेषकों को बताया कि कंपनी गहरे पानी की अपनी पर्वी तट परियोजना के लिए साझेदारों की तलाश कर रही है, ताकि इससे कमाई की जा सके और साथ ही आगे की खोज में मदद के लिए नया साझेदार लाया जा सके। नवामा रिसर्च के आंकडों के अनसार समह ने चाल वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान अपने सभी कारोबारों में 69.5 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं और इसके द्वारा स्वीकृत 8.6 अरब डॉलर के कुल पूंजीगत व्यय में से शेष 3.8 अरब डॉलर की राशि अगले कुछ वर्षों में खर्च की जाएगी। 💠 को विनिवेश कोष बढ़ाने में मदद मिली।

a) For shares in physical mode: Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite documents to Link Intime India Private Limited, Registra and Share Transfer Agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

b) For shares in electronic mode: Members are requested to register their email address, in respect of demandation holdings with the respective Depository Participant (DPs) by following the procedures prescribed by the DPs.

> By Order of the Board of Director For Dish TV India Limited

Place: Noida Date: November 10, 2024

Limited ('NSDL') at evoting@nsdl.co.in.

(ii) For Permanent Registration /updation for Demat Shareholder

Depository's Participant(s).

Ranjit Singh Company Secretary & Compliance Office Membership, No. A15442

#### मवाना सुगर्स लिमिटेड

सीआईएन : L74100DL1961PLC003413

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, कीर्ति महल, 19 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125

दुरभाष : 91-11-25739103, फैक्स : 91-11-25743659, ईमेल : corporate@mawanasugars.com, वेबसाइट : www.mawanasugars.com 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं छमाही अवधि के एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

|             |  | (रु. करोड़ में, आय प्रति अंश छोड़कर) |              |               |           |                               |              |               |              |               |                   |          |              |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------|--------------|
|             |  |                                      | समेकित       |               |           |                               |              |               |              |               |                   |          |              |
| 丣.          |  | समाप्त तिमाही                        |              |               | समाप्त छग | समाप्त छमाही अवधि समाप्त वर्ष |              | समाप्त तिमाही |              |               | समाप्त छमाही अवधि |          | समाप्त वर्ष  |
| <b>सं</b> . |  | अलेखापरीक्षित                        | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखा     | ारीक्षित                      | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखा             | परीक्षित | लेखापरीक्षित |
|             | विवरण  | सितंबर                               | जून          | सितंबर        | सितंबर    | सितंबर                        | मार्च        | सितंबर        | जून          | सितंबर        | सितंबर            | सितंबर   | मार्च        |
|             | 8  | 30, 2024                             | 30, 2024     | 30, 2023      | 30, 2024  | 30, 2023                      | 31, 2024     | 30, 2024      | 30, 2024     | 30, 2023      | 30, 2024          | 30, 2023 | 31, 2024     |
| 1           | परिचालनों से कुल आय  | 383.45                               | 387.70       | 407.27        | 771.15    | 734.28                        | 1,384.39     | 382.93        | 387.35       | 406.92        | 770.28            | 733.61   | 1,382.71     |
| 2           | अवधि / वर्ष हेतु लाभ / (हानि)<br>(कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)  | (25.64)                              | (4.93)       | (17.15)       | (30.57)   | (36.38)                       | 57.98        | (26.54)       | (5.80)       | (18.28)       | (32.34)           | (38.72)  | 53.04        |
| 3           | कर पूर्व अवधि / वर्ष हेतु लाभ / (हानि)<br>(आपवादिक मदों के उपरांत)   | (25.64)                              | (4.93)       | (17.15)       | (30.57)   | (36.38)                       | 57.98        | (26.54)       | (5.80)       | (18.28)       | (32.34)           | (38.72)  | 53.04        |
| 4           | कर उपरांत अवधि / वर्ष हेतु लाभ / (हानि)<br>(आपवादिक मदों के उपरांत)  | (19.29)                              | (3.70)       | (10.29)       | (22.99)   | (24.70)                       | 42.59        | (20.19)       | (4.57)       | (11.42)       | (24.76)           | (27.04)  | 37.65        |
| 5           | अवधि/वर्ष हेतु कुल व्यापक आय/(हानि)<br>(अवधि/वर्ष हेतु लाम/(हानि) तथा अवधि/<br>वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय/(हानि)<br>(कर उपरांत) से समाविष्ट) | (19.29)                              | (3.70)       | (10.29)       | (22.99)   | (24.70)                       | 42.60        | (20.19)       | (4.57)       | (11.42)       | (24.76)           | (27.04)  | 37.66        |
| 6           | समता अंश पूंजी   | 39.12                                | 39.12        | 39.12         | 39.12     | 39.12                         | 39.12        | 39.12         | 39.12        | 39.12         | 39.12             | 39.12    | 39.12        |

#### टिप्पणियाँ :

लेखापरीक्षकों ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं छमाही अवधि के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों की एक सीमित समीक्षा की है। इन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की संस्तुति, 09 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा निदेशक मंडल द्वारा 09 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है।

(5.88)

उपरोक्त विवरण. संशोधितानसार सेबी (सचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं छमाही अवधि के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का साराश हैं। दिनांक 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं छमाही अवधि के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात (www.nseindia.com, www.bseindia.com) पर और कंपनी की वेंबसाइट पर उपलब्ध है।

(6.31)

409.27

10.89

(5.16)

(1.17)

(2.92)

(6.33)

(6.91)

परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्गत प्रासंगिक नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखाँकन मानक ("आईएनडीएएस") के अनुसार तैयार किया गया है।

कृते मवाना सुगर्स लिमिटेड हस्ता. /-राकेश कुमार गंगवार (प्रबंध निदेशक) डीआईएन : 0948585

371.12

9.63

#### विनायक वाणिज्य लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 28, स्टिल्ट फ्लोर, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, वेबसाइटः www.vinayakvanijya.com, फोनः 9079738420, ईमेल आईडीः wanijya985@gmail.com CIN: L52110DL1985PLC020109 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

| (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 47(1)(बी))<br>(रु. लाख   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                |  |  |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|  |                                 | समाप्त तिमाही                   |                                 | समाप्त                          | समाप्त वर्ष                     |                                |  |  |  |
| विवरण  | 30.09.2024<br>( अलेखापरीक्षित ) | 30.06.2024<br>( अलेखापरीक्षित ) | 30.09.2023<br>( अलेखापरीक्षित ) | 30.09.2024<br>( अलेखापरीक्षित ) | 30.09.2023<br>( अलेखापरीक्षित ) | 31.03.2024<br>( लेखापरीक्षित ) |  |  |  |
| प्रचालनों से राजस्व  | 0.00                            | 0.00                            | 4.00                            | 0.00                            | 6.31                            | 19.85                          |  |  |  |
| अन्य आय  | 2.23                            | 3.20                            | 2.29                            | 5.43                            | 2.29                            | 10.46                          |  |  |  |
| अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर,<br>अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों<br>से पूर्व)                             | -2.19                           | 1.05                            | -0.67                           | -1.14                           | -5.97                           | (31.16)                        |  |  |  |
| कर पश्चात अवधि हेतु निवल<br>लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा<br>असाधारण मदों के पश्चात)                      | -2.19                           | 1.05                            | -0.67                           | -1.14                           | -5.97                           | (22.75)                        |  |  |  |
| अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि<br>हेतु लाभ∕(हानि) (कर पश्चात) तथा<br>अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)<br>शामिल] | -2.19                           | 1.05                            | -0.67                           | -1.14                           | -5.97                           | (22.75)                        |  |  |  |
| इक्विटी शेयर पूंजी   | 99.60                           | 99.60                           | 99.60                           | 99.60                           | 99.60                           | 99.60                          |  |  |  |
| आरिक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरिक्षितियां<br>को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के<br>तुलन पत्र में प्रदर्शित है |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 79.80                          |  |  |  |
| आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक)<br>सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु-  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                |  |  |  |
| 1. बेसिक   | -0.23                           | 0.11                            | -0.07                           | -0.12                           | -0.60                           | (2.28)                         |  |  |  |
| 2. डाइल्यूटेड  | -0.23                           | 0.11                            | -0.07                           | -0.12                           | -0.60                           | (2.28)                         |  |  |  |

ऊपर दिया गया विवरण सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉर क्सचेंज में दाखिल तिमाही और छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही/छमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारू स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bscindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.vinayakvanijya.com पर उपलब्ध है।

हस्ता/ दिनांक: 09.11.2024 ( निदेशक डीआईएनः 0652580

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 09 नवंबर, 2024

7 तुलन पत्र के अनुसार अन्य समतायेंश

8 आय प्रति अंश (रु. 10 / - प्रत्येक का) क) मूलभूत एवं तरलीकृत

(4.93)

(0.95)

(2.63)